



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर, 2020

आश्विन 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 27 / 2020 / 1393 / सात-न्याय-2-2020-58जी-2001
लखनऊ, 8 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-252

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित कुटुम्ब न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती हैं।

अनुसूची

क्रमांक	जिला का नाम	अधिकारी का नाम और उनका वर्तमान पदनाम	यथा प्रस्तावित
1	2	3	4
1	आजमगढ़	1-श्रीमती पारूल अत्री, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
		2-श्रीमती प्रज्ञा सिंह-I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
2	गोण्डा	1-श्रीमती विनीता विमल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
3	गोरखपुर	1-श्री सुभाष चन्द्र यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 27/2020/1393/VII-Nyay-2-2020-58G-2001, dated October 8, 2020:

No. 27/2020/1393/VII-Nyay-2-2020-58G-2001
Dated Lucknow, October 8, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984), the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to appoint the Additional District and Sessions Judges mentioned in Column-3 of the Schedule below as the Principal Judge of the Family Court mentioned against each in Column-4 of the said Schedule with effect from the date of their taking over charge of their respective office.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of the officer and their present designation	Proposed as
1	2	3	4
1	Azamgarh	1. Smt. Parul Attri, ADJ	Additional Principal Judge
		2. Smt. Pragya Singh-I, ADJ	Additional Principal Judge
2	Gonda	1. Smt. Vineeta Vimal, ADJ	Additional Principal Judge
3	Gorakhpur	1. Sri Subhash Chandra Yadav, ADJ	Additional Principal Judge

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.